

# विश्व न्याय मंदिर

1 दिसंबर 2021

विश्व के बहाईयों को

परमप्रिय मित्रों,

कुछ ही दिनों पहले पवित्र भूमि में अब्दुल-बहा के स्वर्गारोहण की शताब्दी के स्मृति-समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों पर विचार करते हुए हम आपके समक्ष उन घटना-क्रमों की उदात्त प्रकृति के बारे में अपनी विस्मय-भावना प्रकट करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं। हम 'आशीर्वादित सौन्दर्य' की स्तुति और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि, दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों और यात्रा सम्बंधी अनेक प्रतिबंधों के बावजूद, इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं और क्षेत्रीय बहाई परिषदों की अपार संख्या में से करीब छः सौ प्रतिनिधि बहाई विश्व केंद्र में उपस्थित होने में सक्षम हुए। इस महत्वपूर्ण सम्मिलन के दिन प्रिय 'मास्टर' के जीवन और आदर्श, संविदा के केंद्र के रूप में अब्दुल-बहा, उनके 'इच्छापत्र और वसीयतनामा' और पिछली शताब्दी के दौरान 'प्रशासनिक व्यवस्था' के अनावरण, तथा उनकी 'दिव्य योजना' के कार्यान्वयन के माध्यम से बहाई जगत ने जो असाधारण दूरियां तय की हैं, इन तमाम बातों पर गहन विचार करने में बिताए गए। जब 'उनके' स्वर्गारोहण की पवित्र रात्रि में उनके विश्रान्ति-स्थल के निकट उपस्थित मित्रों ने प्रार्थनाएं अर्पित कीं तो वायुमंडल पावनता की चेतना से व्याप्त हो उठा। अब्दुल-बहा के प्रति प्रेम ने इन मित्रों को 'ईश्वर के पर्वत' की ओर आकर्षित किया, और वे अपने दिलों में उन संस्थाओं के लिए जिनके वे प्रतिनिधि हैं तथा ईश्वर के सभी सखाओं के लिए विश्व न्याय मंदिर का प्रेम संजोये हुए अपने-अपने घर लौटे।

हमें विश्वास है कि इस सम्मिलन से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जाएं आपके समस्त समुदायों में प्रसारित होंगी और उनसे मित्रों को उन विश्वव्यापी सम्मेलनों की आगामी शृंखलाओं के लिए स्वयं को तैयार करने की प्रेरणा प्राप्त होगी, जिनके माध्यम से बहाई विश्व को 'दिव्य योजना' के अगले चरण में ले जाएगा। हम इसके लिए 'पवित्र दहलीज़' पर अपनी उत्कट प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे।

विश्व न्याय मंदिर

बहाई विश्व केंद्र • पी.ओ. बॉक्स 155 • 3100101 हाइफा, इज़रायल

फोन: +972 (4) 835 8358 • ईमेल: [secretariat@bwc.org](mailto:secretariat@bwc.org)